

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2010—आश्विन 13, शक 1932

### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 15-8-2009-दस-2.—राज्य शासन एतदद्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य के बढ़ते वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं नैसर्गिक पूरक आवास सुनिश्चित करने, साथ ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के लाभोन्मुखी पर्यावरणीय, परिस्थितिकीय विकास कार्यों हेतु इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को अनुसूची-1 के अनुसार “बफर जोन” के रूप में घोषित करता है।

“इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान” जो पूर्व में अधिसूचना क्रमांक एफ 15-11-05-दस-(2), दिनांक 16 दिसम्बर 2005 एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-65-96-दस-2, दिनांक 21 अगस्त 1998 के तहत अधिसूचित किया गया गया है, यथावत अपरिवर्तनीय रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस.पी. शर्मा, अपर सचिव,

अनुसूची-1

(बफर जोन की सीमाओं का विवरण)

जिला (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वन परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय)/ क्षेत्रफल (हेक्टे.)	बफर जोन की सीमाओं का विवरण (7)
(2)	(4)	(6)	
सिवनी छिन्दवाड़ा	76830.225	1. घाटकोहका (घाटकोहका)	(1) परिक्षेत्र घाटकोहका : उत्तरी सीमा—पेंच नदी से दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 379 की उत्तरी सीमा, कक्ष 383 की रीछी वनग्राम की दक्षिणी सीमा लाईन, कक्ष 382 की उत्तरी सीमा,
		11502.230	

(2)	(4)	(6)	(7)
			कक्ष 381 की पश्चिमी उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 395 की उत्तरी सीमा, ग्राम सिमरिया की उत्तरी, पूर्व एवं दक्षिणी सीमा, ग्राम परासपानी की पूर्वी सीमा, ग्राम बरेलीपार की उत्तरी सीमा, ग्राम साल्हे, सरहिरी की पश्चिमी एवं ग्राम टेकनी, घाटकोहका की उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-451 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा ग्राम पांजरा एवं सिंदरिया की उत्तरी सीमा ग्राम मोहगांव की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, ग्राम निवारी की उत्तरी सीमा, ग्राम आगरी की पश्चिमी उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 455 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा (राष्ट्रीय राजमार्ग-7).
			पूर्वी सीमा—दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल के संरक्षित वन कक्ष पी-455 की पूर्वी सीमा.
			दक्षिणी सीमा—पेंच मोगली अभ्यारण्य के वन कक्ष क्रमांक 644 से वन कक्ष क्रमांक 615 तक पेंच मोगली अभ्यारण्य की सीमा, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कर्मांशिरी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 616 की उत्तरी सीमा से आरक्षित वन कक्ष 592 की उत्तरी तक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा.
			पश्चिमी सीमा—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आरक्षित वन कक्ष 592 की उत्तरी-पश्चिमी सीमा से पेंच नदी सिवनी-छिन्दवाड़ा जिला सीमा लाईन दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल के वन कक्ष 379 तक.
2. खवासा (खवासा) 11868.740			<b>परिक्षेत्र खवासा :</b> उत्तरी सीमा—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आरक्षित वन कक्ष 616 की दक्षिणी सीमा से पेंच मोगली अभ्यारण्य के आरक्षित वन कक्ष 618 से 659 तक पेंच मोगली अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा राष्ट्रीय राज मार्ग 7 तक.
			पूर्वी सीमा—ग्राम पिंडकापार से ग्राम कोठार तक राष्ट्रीय राजमार्ग-7.
			दक्षिणी सीमा—ग्राम कोठार की दक्षिणी सीमा से इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 605 की सीमा तक.
			पश्चिमी सीमा—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आरक्षित वन कक्ष 605 से 616 की दक्षिणी सीमा तक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा.
3. रुखड़ (रुखड़) 12449.720			<b>परिक्षेत्र रुखड़ :</b> उत्तरी सीमा—दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल सिवनी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 456 की पश्चिमी उत्तरी एवं पूर्वी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 418 एवं 420 की उत्तरी सीमा, ग्राम साखादेही एवं दरासी खुर्द की उत्तरी सीमा ग्राम दरासी कला की उत्तरी. पूर्वी सीमा—ग्राम दरासी कला की उत्तरी-पूर्वी सीमा से संरक्षित वन कक्ष पी-448, संरक्षित वन कक्ष 430, 405 235, 236 एवं 239 की पूर्वी सीमा.

(2)	(4)	(6)	(7)
			<b>दक्षिणी सीमा—आरक्षित वन कक्ष 239 की दक्षिणी सीमा से वन कक्ष 238, 240, 241, 242, 243, 245 एवं 246 की दक्षिणी सीमा (राष्ट्रीय राजमार्ग-7) तक.</b>
			<b>पश्चिमी सीमा—दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल के वन कक्ष क्रमांक 246 से 417 तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7.</b>
4. अरी (अरी) 14244.370			<p><b>परिक्षेत्र अरी :</b></p> <p><b>उत्तरी सीमा—ग्राम दरासी कला की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा ग्राम खापा की पूर्वी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 449 की पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 193 की उत्तरी सीमा, ग्राम आतरवानी (वन कक्ष क्रमांक 197) एवं मगरकठा की उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 188 की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 185 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 205 की पश्चिमी सीमा, ग्राम दुल्हापुर, बापूटोला की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 204 की पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 174 की उत्तरी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा तक.</b></p> <p><b>पूर्वी सीमा—दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 174 की पूर्वी सीमा से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 168, 166 एवं 165 की उत्तरी सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 164, 163 एवं 162 की पूर्वी सीमा तक.</b></p> <p><b>दक्षिणी सीमा—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 161, 160, 159, 158 एवं 222 की दक्षिणी सीमा (सिवनी-बालाघाट जिला सीमा लाईन) आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 225, 218 की दक्षिणी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 215 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 216, 217 की पश्चिमी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 226 की पश्चिमी सीमा वन कक्ष 230 की पश्चिमी सीमा, वन कक्ष क्रमांक 231, 234, पी 271 की दक्षिणी सीमा एवं 239 की पूर्वी सीमा.</b></p> <p><b>पश्चिमी सीमा—दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल के वन कक्ष क्रमांक 234, 233, 431, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 449 एवं ग्राम खापा की पश्चिमी सीमा.</b></p> <p><b>परिक्षेत्र कुम्भपानी :</b></p> <p><b>उत्तरी सीमा—दक्षिण छिन्दवाड़ा सामान्य वनमण्डल के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1401 की उत्तरी सीमा से वन कक्ष क्रमांक 1402 की उत्तरी सीमा, वन कक्ष क्रमांक 1403 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, ग्राम कान्हासागर दावाज़िर की उत्तरी सीमा, ग्राम बासखेड़ा की पश्चिमी उत्तरी सीमा से ग्राम कोना पिण्डरई की उत्तरी सीमा तक पेंच नदी.</b></p> <p><b>पूर्वी सीमा—ग्राम कोना पिण्डरई की पूर्वी सीमा से इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के गुमतरा परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1422 तक पेंच नदी.</b></p>
5. कुम्भपानी (कुम्भपानी) 17124.727			

(2)

(4)

(6)

(7)

**दक्षिणी सीमा**—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष क्रमांक 1422 से 1443 तक राष्ट्रीय उद्यान सीमा लाईन. दक्षिण छिन्दवाड़ा सामान्य के 1498 की दक्षिणी सीमा, ग्राम चारगांव की दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिमी सीमा**—ग्राम चारगांव एवं खमरिया की पश्चिमी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 1408 तथा ग्राम सिंगारदीप, बंधान रैय्यत एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1402 की पश्चिमी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1401 की दक्षिणी सीमा तक.

6. खमरपानी  
(खमरपानी)  
9640.438

#### परिक्षेत्र खमरपानी :

**उत्तरी सीमा**—आरक्षित वन कक्ष 1487 एवं 1490 की पश्चिमी सीमा, ग्राम सालीवाड़ा की पश्चिमी उत्तरी सीमा संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 1491 की उत्तरी सीमा, ग्राम सिलौटा खुर्द की पश्चिमी सीमा, ग्राम सिलौटा कला की पश्चिमी, उत्तरी सीमा, ग्राम चारगांव एवं खमरिया की पश्चिमी सीमा, ग्राम बोरिया की उत्तरी सीमा संरक्षित वन कक्ष पी 1497 की उत्तरी सीमा से राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष 1443 की सीमा तक.

**पूर्वी सीमा**—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष क्रमांक 1443 से 1465 तक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लाईन.

**दक्षिणी सीमा**—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष क्रमांक 1465 से ग्राम कुन्डई की दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिमी सीमा**—ग्राम कुन्डई की दक्षिणी सीमा, ग्राम बिसनपुर, सावरी, देवरी, कन्हरगांव, खमरपानी, दैनी की पश्चिमी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1483 की पश्चिमी सीमा, ग्राम करहैया की पश्चिमी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 1486 की पश्चिमी सीमा, ग्राम अंतरा की पश्चिमी सीमा, आरक्षित वन कक्ष 1487 एवं 1490 की पश्चिमी सीमा.